



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं० 16] नई दिल्ली, जून 11—जून 17, 2006, शनिवार/ज्येष्ठ 21—ज्येष्ठ 27, 1928
No. 16] NEW DELHI, JUNE 11—JUNE 17, 2006, SATURDAY/JYAISTHA 21—JYAISTHA 27, 1928

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 7 जून, 2006

आ. अ. 53.—जबकि, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के उप-निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वर्ती बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और जबकि, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन क्षेत्र का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए उप निर्वाचन, 2005	231-औराई	श्री कल्पनाथ, बेदमनपुर, पोस्ट-परसीपुर, सन्त रविदास नगर, भदोही, उत्तर प्रदेश।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	-वही-	-वही-	श्री विनय कुमार, लीलाधरपुर, सन्त रविदास नगर, भदोही, उत्तर प्रदेश।	-वही-

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./2005 (उप)]

आदेश से,

ललित मोहन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 7th June, 2006

O. N. 53.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the table below at the Bye-Elections to the Legislative Assembly in the State of Uttar Pradesh as specified in column (2) held from the Constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge the account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said table;

And, whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notices and/or the Election Commission, after considering the representation made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either house of the Parliament or of any Legislative Assembly or Legislative Council of any State/Union Territory for a period of three years from the date of this order:—

TABLE

Sl. No.	Particular of Election	Sl. No. & Name of Constituency	Name & Address of Contesting Candidates	Reason of Disqualification
1	2	3	4	5
1.	Bye-election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2005.	231-Aurai	Shri Kalpanath, Bedmanpur, Post-Parsipur, Sant Ravidas Nagar, Bhadohi, Uttar Pradesh.	Failed to lodge any account of his election expenses.
2.	-do-	-do-	Shri Vinay Kumar, Liladharpur, Sant Ravidas Nagar, Bhadohi, Uttar Pradesh	-do-

[No. 76/UP-LA/2005 (Bye)]

By Order,

LALIT MOHAN, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जून, 2006

आ. अ. 54.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के उप-निर्वाचन, 2005 के लिए जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है स्तम्भ (3) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा समय के अन्तर्गत दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है:—

सारणी

क्रम सं.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्र.सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरहता का कारण
1	2	3	4
1.	166-पेनुकोन्डा	श्री बी. चन्द्रायुदु, गुट्टुर ग्राम व पो., पेनुकोन्डा मण्डल, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया।
2.	166-पेनुकोन्डा	श्री टी. नरसिम्हलु, गुट्टुर ग्राम व पोस्ट, पेनुकोन्डा मण्डल, आन्ध्र प्रदेश।	लेखा दाखिल नहीं किया।

[सं. 76/आ.प्र.-वि.स./2005 (उप)]

आदेश से,

तपस कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th June, 2006

O. N. 54.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidate specified in column (3) of the Table below at the Bye-Elections to the Andhra Pradesh Legislative Assembly, 2005 held from the Constituency specified in column (2) against his/her name has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law as shown in column (4) of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the rules made thereunder; and

Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice or the Election Commission, after considering the representation made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this Order.

TABLE

Sl.No.	Sl. No. & Name of Constituency	Name & address of Contesting Candidate	Reason of disqualification
1.	2.	3.	4.
1.	166-Penukonda	Sh. B. Chandrayudu, Guttur Village and Post, Penukonda Mandal, Andhra Pradesh,	Account not lodged.
2.	166-Penukonda	Sh. T. Narasimhulu, Guttur Village and Post, Penukonda Mandal, Andhra Pradesh.	Account not lodged.

[No. 76/AP-LA/2005 (Bye)]

By Order,

TAPAS KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जून, 2006

आ. अ. 55.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे सारणी में यथा विनिर्दिष्ट आन्ध्र प्रदेश विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2004 के लिए जो स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (3) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व, अधिनियम 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है:—

सारणी

क्रम सं.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्र.सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4
1.	11-बोम्बिली	श्री ई. वी. गोपाल राव, 50-2-8, गांधीनगर, टी.बी. हास्पिटल जे.एन. विशाखापटनम-16, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
2.	38-येल्लावरम (अ.ज.जा.)	श्री कुन्जम पान्डुडोरा, डी. भीमावरम (वी) अदातीगाला मण्डल, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
3.	39-बुरुगुपुडी	श्रीमती कोरुपु अट्टचामामबा पत्नी वेंकटरामकृष्णा, डोर न. 1-15 राघवपुरम गांव, कोरुकोन्डा माण्डल आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
4.	45-तुनी	श्री मडाला वेंकट चालापति राव स्वरुनगावरुकशाम गांव, थोनडंगी मण्डल, पूर्व गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
5.	106-गुरजाला	श्री गुल्ला कोटेश्वरराव, मडुगुला (वी) गुरजाला (मंडल) आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
6.	107-माचेरला	श्री अल्लू वेंकट रेड्डी, सुब्बारेड्डी पलेभ माचेरला मण्डल गुन्दूर जिला, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया

1	2	3	4
7.	107-माचेरला	श्री घन्या वेनुगोपाल रेड्डी, डोर न. 15-1-98/2, नेहरू नगर, फर्स्ट लाइन, माचेरला, गुन्तूर जिला, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
8.	107-माचेरला	श्री पुलुसु रामकृष्ण रेड्डी, चिन्ना रामीरेड्डी, डोर न. 2-43, वेलदुरथी गांव और मण्डल गुन्तूर जिला, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
9.	107-माचेरला	श्री भीमा जर्नादन राव, मैन रोड, दुर्गी गांव और मण्डल गुन्तूर जिला, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
10.	151-राजमपेट	श्री कोटापती राधाकृष्णा, 3/80, शास्त्री नगर अकायापल्ली, कुड्डापाह, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
11.	154-कुड्डापाह	श्री खदार बाशा शैक, 7/705-1 चिल्कलाबवी स्ट्रीट, कुड्डापाह, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
12.	158-जम्मालामाडुगु	श्री के. संजीव रेड्डी, 3/16 जंगलापल्ली पेड्डम्भूडियम मण्डल आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
13.	179-कुरनूल	श्रीमती वी. लक्ष्मी प्रभा, मकान न. 78/20/2 कृष्णा नगर, कुरनूल, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
14.	182-कोइलकुन्टला	श्री बोदनाम बालनागान्ना, मकान सं. 5-36 भीमुनीपादू गांव कोइलकुन्टला मण्डल कुरनूल जिला आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
15.	182-कोइलकुन्टला	श्री यगाननगर नारायण रेड्डी, मकान सं. 2-35, रोन्दूपल्ली गांव ओक मण्डल, कुरनूल जिला आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
16.	185-नन्दीकोटकुर	श्री बाथूला कृष्णा रेड्डी, मकान सं. 16-39 ए-11, विधा नगर, नानकीकोटकर, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया

171045/06-2

1	2	3	4
17.	185-नन्दीकोटकुर	श्री रविन्द्र गौड, मकान सं. 17-45/जे. 1, सुब्बारावपेटा नन्दीकोटकुर आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
18.	186-नन्दयाल	श्री एन. ओबाना मादिगा, मकान सं. 7-6-10 अल्लागदा, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
19.	205-इब्राहीमपटनम (अ.जा.)	श्री अल्लाकोन्डा अन्जामा, मकान सं. 4-48/100, वेन्कटराम रेड्डी नगर कालोनी, इब्राहीमपटनम, रंगा रेड्डी जिला-501506, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
20.	205-इब्राहीमपटनम (अ.जा.)	श्री हनुमंगला चन्द्रैय्या, कोलापादकल गांव, पोस्ट दूबाचेरला वाया पालामकुला, जिला आर. आर. (रंगा रेड्डी), आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
21.	207-हिमायतनगर	श्री बीराप्पू राम मोहन रेड्डी, मकान सं. 1-2-606/80/104, दोमालगुदा, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
22.	220-सिद्दीपेट	श्री गाजाभीमकर बन्सी लाल, मकान सं. 8-2-24/सी, निकट मारकण्डा मंदिर, सिद्दीपेट, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
23.	223-अनदोले (अ.जा.)	श्री माने भारती, सिन्नुर (ग्राम), पुलकल मण्डल, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
24.	253-इन्दुरथी	श्री गोरला रामूलू 1-77/6 बेजेन्की (ग्राम) और मण्डल आन्ध्र प्रदेश	लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं किया
25.	261-चेरियल	श्री नन्दी निर्मला मकान सं. 4-67 अलिमपुर (ग्राम) बाच्चानापेट (मण्डल) बारंगल जिला आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
26.	285-कोडाड	श्री बन्दारू नरसैयाह मुनागला (ग्राम) और मण्डल आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया

1	2	3	4
27.	285-कोडाड	श्री डी. जे. वाराप्रसाद राव 64-सी, न्यू कालोनी भाराखतागुडेम (बी.) मुनागला मण्डल आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया

[सं. 76/आ.प्र.-वि.स./2005]

आदेश से,

तपस कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th June, 2006

O. N. 55.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (3) of the table below at the General Election to the Legislative Assembly, 2004 held from the Constituency specified in column (2) against his/her name has failed to lodge an account of his election expenses and failed to lodge the account in the manner required by law as mentioned in column (4) of the said Table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the rules made thereunder ;

And, whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failures even after due notices, or the Election Commission, after considering the representation made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order:—

Sl. No.	No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address of the Contesting Candidates	Reason for Disqualification
1	2	3	4
1.	11-Bobbili	Sh. E. V. Gopal Rao, 50-2-8, Gandhinagar, T. B. Hospital Jn Visakhapatnam-16 Andhra Pradesh	Accounts not lodged
2.	38-Yellavaram (ST)	Sh. Kunjam Pandu Dora, D. Bhimavaram (V) Addateegala Mandal, Andhra Pradesh.	Accounts not lodged
3.	39-Burugupudi	Smt. Korpu Atchamamba W/o Venkataramakrishna D. No. 1-15, Raghavapuram Village, Korukonda Mandal Andhra Pradesh	Accounts not lodged
4.	45-Tuni	Sh. Maddala Venkata Chalapathy Rao. Srungavruksham Village, Thondangi Mandal, East Godavari District Andhra Pradesh	Accounts not lodged

171045106-3

1	2	3	4
5.	106-Gurazala	Sh. Gulla Koteswara Rao, Madugula (V) Gurazala (M), Andhra Pradesh	Accounts not lodged
6.	107-Macherla	Sh. Allu Venkata Reddy, Subbareddy Palem, Macherla Mandal, Guntur District, Andhra Pradesh	Accounts not lodged
7.	107-Macherla	Sh. Ghanta Vanugopala Reddy, Dr. No. 15-1-98/2, Nehru Nagar, 1st Line, Macherla, Guntur District, Andhra Pradesh	Accounts not lodged
8.	107-Macherla	Sh. Pulusu Ramakrishna Reddy, China Ramireddy Dr. No. 2-43, Veldurthy Village & Mandal, Guntur District, Andhra Pradesh	Accounts not lodged
9.	107-Macherla	Sh. Bheema Janardhana Rao Main Road Durgi Village and Mandal, Guntur District Andhra Pradesh	Accounts not lodged
10.	151-Rajampet	Sh. Kotapati Radhakrishna, 3/80 Sasthri Nagar, Akkayapalli, Cuddapah, Andhra Pradesh	Accounts not lodged
11.	154-Cuddapal	Sh. Khadar Basha Shaik 7/705-1, Chilakalabavi Street, Guddapah Andhra Pradesh	Accounts not lodged
12.	158-Jammalamadugu	Sh. K. Sanjeeva reddy, 3/18 Jangalapalli, Peddamudium Mandal, Andhra Pradesh	Accounts not lodged
13.	179-Kurnool	Smt. V. Lakshmi Prabha H. No. 78/20/2, Krishna Nagar, Kurnool Andhra Pradesh	Accounts not lodged
14.	182-Koilkuntla	Sh. Bodanam Balanaganna H. No. 5-36, Bheemunipadu Village, Koilkuntla Mandal, Kurnool District, Andhra Pradesh	Accounts not lodged

1	2	3	4
15.	182-Koilkuntla	Sh. Yagannagar Narayana Reddy H. No. 2-35, Rondupalli village, Owk Mandal, Kurnool District, Andhra Pradesh	Accounts not lodged
16.	185-Nandikotkur	Sh. Bathula Krishna Reddy H. No. 16-39-A-11, Vidya Nagar, Nandikotkur Andhra Pradesh	Accounts not lodged
17.	185-Nandikotkur	Sh. Ravindra Goud H. No. 17-45/J1 Subbaraopeta Nandikotkur Andhra Pradesh	Accounts not lodged
18.	186-Nandyal	Sh. N. Obanna Madiga H. No. 7-6-10, Allagadda Andhra Pradesh	Accounts not lodged
19.	205-Ibrahimpattam (SC)	Sh. Allakonda Anjamma, H. No. 4-48/100, Venkatram Reddy Nagar Colony, Ibrahimpattam Ranga Reddy District-501506, Andhra Pradesh	Accounts not lodged
20.	205-Ibrahimpattam (SC)	Sh. Hanumagalla Chandraiah, Kollapadkal Village, Post Dubbacherla Via, Palamakula, R. R. District, Andhra Pradesh	Accounts not lodged
21.	207-Himayathnagar	Sh. Beerapu Ram Mohan Reddy H. No. 1-2-606/80/104, Domalguda, Hyderabad Andhra Pradesh	Accounts not lodged
22.	220-Siddipet	Sh. Gajabheemkar Bansi Lal, H. No. 8-2-24/C Near Markandeya Temple, Siddipet, Andhra Pradesh.	Accounts not lodged
23.	229-Andole (SC)	Sh. Manne Bharathi Singoor (V) Pulkaal Mandal, Andhra Pradesh	Accounts not lodged
24.	253-Indurthi	Sh. Gorla Ramulu, 1-77/6 Bejjenki (V) & Mandal, Andhra Pradesh	Accounts not lodged in the manner required by law.

1.	2.	3.	4.
25.	261-Cherial	Sh. Nandi Nirmala H. No. 4-67, Alimpur (V) Bachannapet (M), Warangal District Andhra Pradesh	Accounts not lodged
26.	285-Kodad	Sh. Bandaru Narsaiah Munagala (V) & Mandal Andhra Pradesh	Accounts not lodged
27.	285-Kodad	Sh. D. J. Varaprasad Rao 64-C, New Colony, Bharakhathgudem (V) Munagala Mandal Andhra Pradesh	Accounts not lodged

[No. 76/AP-LA/2005]

By Order,

TAPAS KUMAR, Secy.